

10000
This question paper contains 4 printed pages]

Roll No.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

S. No. of Question Paper : 4239A

I

Unique Paper Code : 6967000008

Name of the Paper : Financial Literacy

Name of the Course : Value Addition Course (VAC)

Semester : IV

Duration : 2.30 Hours

Maximum Marks : 70

(Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.)

(इस प्रश्न-पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए।)

Note : — Answers may be written either in **English** or in **Hindi**; but the same medium should be used throughout the paper.

टिप्पणी :— इस प्रश्न-पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए; परन्तु सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए।

This question paper has 2 parts and 9 questions in total.

इस प्रश्न-पत्र में 2 भाग और कुल 9 प्रश्न हैं।

Part-A and Part-B are compulsory.

भाग-अ और भाग-ब अनिवार्य हैं।

All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

Use of simple calculator is allowed.

साधारण कैलकुलेटर के उपयोग की अनुमति है।

Part-A

30

भाग-अ

Attempt *three* questions in all. Question 1 is compulsory.

कुल तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1 अनिवार्य है।

1. Write short notes on any *two* :

2×5=10

किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :

(a) "A rupee of today is not equal to the rupee of tomorrow."

"आज का एक रुपया कल के एक रुपये के बराबर नहीं है।"

(b) Ponzi Schemes

पोंजी योजनाएँ

(c) Systematic Insurance Plan

व्यवस्थित बीमा योजना

2. Calculate the expected risk and return of XYZ Limited :

10

XYZ लिमिटेड के अपेक्षित जोखिम और रिटर्न की गणना कीजिए :

State अवस्था	Probability संभावना	Return रिटर्न
Growth विस्तार	40%	70%
Stagnant स्थिर	30%	30%
Recession मंदी	30%	- 25%
		-25%

3. What are the various types of financial products available for an investor ? How important is it to have financial discipline ? 10

एक निवेशक के लिए कौनसे वित्तीय उत्पाद उपलब्ध हैं ? वित्तीय अनुशासन क्यों महत्वपूर्ण है ?

4. What are mutual funds ? How are they different from systematic investment plans ? 10

अभ्युचुअल फंड क्या हैं ? व्यवस्थित निवेश योजनाओं से वे कैसे भिन्न हैं ?

Part-B

40

भाग-ब

(a) Attempt any 4 questions.

किन्हीं चार प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

(b) Each question carries 10 marks.

प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है।

1. Discuss the digitization of financial transactions in India. What are the various methods available ? 2×5=10

भारत में वित्तीय लेन-देन के डिजिटलीकरण पर चर्चा कीजिए। इसके लिए कौन-कौनसी विभिन्न विधियाँ उपलब्ध हैं ?

2. Compute total income and tax liability of the assessee Ms. Rohini (aged 50 years) under both old and new tax regime for the Financial Year 2024-25. 10

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पुरानी और नई दोनों कर व्यवस्था के तहत करदाता सुश्री रोहिणी (आयु 50 वर्ष) की कुल आय और करदेयता की गणना कीजिए :

Basic Salary ₹ 1,10,000 p.m.

मूल वेतन ₹ 1,10,000 प्रतिमाह

Dearness Allowance ₹ 10,000 p.m.

महंगाई भत्ता ₹ 10,000 प्रतिमाह

Contribution to P.P.F.	₹ 75,000
पी.पी.एफ में योगदान	₹ 75,000
Life Insurance premium paid	₹ 45,000
जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान	₹ 45,000
Deposited in Sukanya Samriddhi Yojna	₹ 25,000
सुकन्या समृद्धि योजना में जमा हुए-	₹ 25,000
Tuition fees paid	₹ 20,000
ट्यूशन फीस का भुगतान किया	₹ 20,000
Medical Insurance premium paid (Dependent son)	₹ 26,000
चिकित्सा बीमा प्रीमियम का भुगतान (आश्रित पुत्र)	₹ 26,000

3. What is the concept of insurance ? Discuss the various types of Life and Non-Life insurance policies available. 10

बीमा की अवधारणा क्या है ? उपलब्ध विभिन्न प्रकार की जीवन और गैर-जीवन बीमा पॉलिसियों पर चर्चा कीजिए।

4. Discuss the steps involved in the process of financial planning. 10

वित्तीय नियोजन की प्रक्रिया में शामिल चरणों पर चर्चा कीजिए।

5. Write short notes on : 10

संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :

(a) Digital Wallets

डिजिटल वॉलेट

(b) Permanent Account Number

स्थायी खाता संख्या.